

बीज विज्ञान एव प्रोद्योगिकी संभाग  
Division of SST  
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली- 110012  
I.C.A.R.-Indian Agricultural Research Institute New Delhi-110012

मिसिल संख्या: SST/2023-24/SC-SP

दिनांक Dated : 25/10/2023

**NOTICE FOR E-PROCUREMENT THROUGH GEM**

निदेशक, भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण की आपूर्ति एवं कार्य हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं/अधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्त बोली) के अन्तर्गत ऑन-लाइन क्यूटेशन GeM पर आमंत्रित की जाती हैं। क्यूटेशन/निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.11.2023, समय 4.00 बजे दोपहर तक है। क्यूटेशन/निविदा को दिनांक 15.11.2023 को दोपहर 4.30 बजे निर्धारण समिति के समक्ष खोला जाएगा।

On-line Bids on GeM are invited from reputed Manufactures/Supplier/Authorized Dealer in two bid system (Technical bid & Financial bid) for purchase of following Scientific Equipment on behalf of Director, ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. The last date for submission of Bid is 15.11.2023 at 4.00 PM. The bid will be opened on 15-11-2023 at 4.30 PM by the prescribed committee.

विस्तृत नियम व शर्तों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट [www.iari.res.in](http://www.iari.res.in) पर देखें एवं ऑन-लाइन के लिए इसे [www.gem.gov.in](http://www.gem.gov.in) पर भी देखा जा सकता है। Please visit [www.iari.res.in](http://www.iari.res.in) for Details Rules and Regulation and log on [www.gem.gov.in](http://www.gem.gov.in) for online bidding.

क्र.सं. S.No.	वैज्ञानिक उपकरण का नाम Name of Scientific Equipment	मात्रा Quantity	धरोहर राशि Earnest Money	Cost of the Equipment
1.	Protected Structure Net House (28 m x 8m =224 Sq m)	10	रूपये 300000/-	30 Lacs

The tender details are mentioned below:

Tender No.	GEM/2023/B/3986888
Bid Submission start date & time	25/10/2023 11:00 AM
Last date & time for submission of bid	15/11/2023 14:00 PM
Date & time for opening of technical bid	15/11/2023 14:30 PM
Cost of estimated bid value (in Rupees)	Rs. 30,00,000/-

**DIVISION OF SEED SCIENCE & TECHNOLOGY  
INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE**

**NEW DELHI-110012**

**REQUISITION FOR THE PURCHASE OF STORES**

**NAME OF THE PROJECT/SCHEME** .....(SCSP General).....**Code No.**.....

Kindly arrange the following articles which are required for.....for office use  
.....(Justification to be given by the indenting officer)

Name of Firm	Item*	Qty	Rate/pack (Rs/kg)	Cost (in Rs.)
1	<p>Protected Structure Net house (28 m x 8 m = 224 sq m)                      Structure: GI Tubular structure                      Height: sides 3 m and centre 4.5 m                      Gutter slope: 1-2% with civil structure work                      Ridge purlin with GI pipe (38 x 38 mm OD, 2 mm thick)                      Trusses : Bottom 38 x 38 mm/ 2 mm thickness. Top arch 38 x 38 mm, OD/2 mm, bracing 25 x 25 mm, OD 2 mm thick GI pipe. Foundation of 1:2:4 PCC of size 0.30 m x 0.30 m x 0.75 m                      Fastener with anti-corrosive.                      Top and all sidecovering: UV stabilized 40mesh net, 120 GSM fixing GI locking profile of fixing mesh                      Door lockable and 1.5 m x 2 m frame covered with 40 mesh.                      Water tank: 500 lit, PVC</p> <p><b>Terms and conditions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT returns of last 3 consecutive years.</li> <li>• Certificates: GST registration certificates, ISO certificate</li> <li>• Minimum turnover of 75 laksh/year in last 3 years period.</li> <li>• Experience of firm: at least 7 years in construction/installation of protected structures.</li> </ul> <p><b>Note:</b> Samples of all the input items must be submitted before opening of the tender.</p>	10	As per GEM or open tender	Total cost = Approx. 30.0 lakhs
<b>Total</b>				

**\*To demonstrate and promote protected cultivation technology of vegetables, mainly for disease & insect free nurseries, growing vegetables with low or no use of pesticides etc. in SC farmers in SCSP scheme.**


**SIGNATURE**.....

**NAME AND DESIGNATION OF INDENTING OFFICER** : (.....)

(Division of Seed Science & Technology)


 Dr. Shrawan Singh  
 Senior Scientist  
 शाकीय विज्ञान-प.स.भाग  
 Division of Vegetable Science  
 भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-12  
 ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-12

Sh. Nav Bahan  
19/10

  
**Dr. Sandeep Kumar Lal**  
 Nodal Officer SCSP  
 Division of Seed Science & Technology  
 ICAR-Indian Agricultural Research Institute  
 New Delhi- 110 012 (India)